

घर की सुरक्षा व अग्नि से रक्षा

Fact Sheet 22 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Hindi

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

यथार्थ

हर साल एन-एस-डबल्यू में कुछ निवासी, अपने घरों की सुरक्षा प्रबन्धों के कारणों से, आग लगने पर अपने घरों से बच निकलने में कठिनाईयों का सामना करते हैं तथा बचाव में समय ज्यादा लग जाने के कारण मर भी जाते हैं। हमारी सलाह है कि घर की रक्षा तथा सुरक्षा प्रबन्धों में संतुलन रखा जाना चाहिए। अनजाने लोगों से घर की रक्षा महत्वपूर्ण है पर ऐसा न हो कि आग लग जाने पर आप अपने को तथा अपने परिवार को बाहर न निकाल सकें।

आप अपने घर की सुरक्षा का स्तर कोई भी रखें, पर हमारी सलाह है कि आप चोरों के खतरे के स्तर को नापने के साथ ही, घर में आग के समय कैसे बचकर निकला जा सकता है इसके बारे में अतिरिक्त ध्यान रखें ताकि आप आग लगने पर सुरक्षित बच सकें।

यें वे सुरक्षा मापक हैं जिनका असर आग से आपके बचाव कार्य पर पड़ सकता है:

- बाहर के दरवाज़े पर अनेक तालें /या चाभी से खुलने वाले तालें
- सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर जाली तथा सलाखें अथवा सुरक्षा स्क्रीन दरवाज़े
- खिड़कियों पर चाभी वाले तालें अथवा रॉलर शटर (roller shutters)

सुरक्षा मापक जो आपके घर पर अवश्य होने चाहिए:

- प्रत्येक घर अथवा यूनिट में सही संख्या में, अनुमोदित (AS3786) कार्यशील आग के खतरे की घण्टी (smoke alarm) लगायें तथा समय-समय पर उनकी जाँच करें।
- आपके घर की प्रत्येक मंजिल पर आग के खतरे की घण्टी होनी चाहिए।
- प्रत्येक कमरे से निकलने के लिए दो सुरक्षित तरीकों को जानकारी होनी चाहिए - याद रखियें हर सैकेण्ड महत्वपूर्ण होता है।
- आग से बचने के लिए 'लिखित बचाव योजना' बनायें तथा अपने परिवार के साथ उसका नियमित अभ्यास करें।
- ध्यान रखें कि अगर बचाव की आवश्यकता हो तो बाहर निकलने के लिए सभी दरवाज़ों तथा खिड़कियाँ जल्दी से खुल जायें।
- ध्यान रखें, सभी ताला बन्द दरवाज़ों की चाबियाँ आपको असानी से मिल जायें।
- अगर दुर्भाग्य से घर में आग लग जायें तो शारीरिक असमर्थता तथा वृद्धावस्था के कारण बचाव की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।
- हो सकता है कि गहरी नींद में सोने वाले जैसे कि बच्चे या अन्य शराब या नशे से प्रभावित लोग खतरे की घण्टी की आवाज़ सुनकर जल्दी नींद से न जागें। अपनी सुरक्षा योजना में इनकी व्यवस्था का ध्यान रखें।
- अग्नि सुरक्षा की अतिरिक्त जानकारी के लिए अन्य यथार्थ सूचना पत्रों (fact sheets) को पढ़िए।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्नि शामक केन्द्र या अग्नि नियंत्रण केन्द्र से सम्पर्क करें
अथवा देखें: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au or www.esa.act.gov.au

अग्नि से बचाव के सुझाव

- याद रखें कि आग के धुँए से आप भ्रमित हो जायेंगे तथा आप धुँए में देख नहीं सकेंगे।
- अगर आपने आग से बचने के लिए घर खाली (evacuate) कर दिया है तो बाहर ही रहें तथा 000 पर फोन मिलायें।
- बच्चों को आग से बचने के लिए बनाई योजना का पूर्ण अभ्यास करवा कर ही आग से बचाव की ड्रिल करें।
- अगर घर में किसी को कम सुनाई देता हो या चलने फिरने में दिक्कत आती हो तो इस बात को ज्यादा ध्यान में रखिये और अगर आवश्यकता हो तो किसी व्यक्ति को उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर दीजिए।
- घर से आग की सुरक्षा पूरे परिवार के लिए आवश्यक है तथा तैयारी द्वारा दुर्घटना होने से बचा जा सकता है।

आपातकाल में 000 नम्बर पर फोन कीजिए